

ये अव्यक्त इशारे

अपनी शक्तिशाली मन्सा द्वारा सकाश देने की सेवा करो

28-01-2025

मन-बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मनमनाभव के मंत्र को सदा स्मृति में रखो। मनमनाभव के मंत्र की प्रैक्टिकल धारणा सपहला नम्बर आ सकते हो। मन की एकाग्रता अर्थात् एक की याद में रहना, एकाग्र होना यही एकान्त है। जब सर्व आकर्षणों के वायब्रेशन से अन्तर्मुख बनेंगे तब मन्सा द्वारा पूरे विश्व को सकाश देने की सेवा कर सकेंगे।

**With your powerful minds,
do the service of giving sakaash.**

In order to concentrate your mind and intellect, constantly keep the mantra of "Manmanabhav" in your awareness. By imbibing the mantra of "Manmanabhav" practically, you can claim a first number. To have concentration of the mind means to stay in the remembrance of One, to be concentrated in solitude. When you become introverted and free from the vibrations of all attractions, you will then be able to do the service of giving sakaash to the whole world with your mind.